

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 250]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 26 जून 2014—आषाढ़ 5, शक 1936

कार्यालय, राज्यपाल का सचिवालय, मध्यप्रदेश, भोपाल

राजभवन, भोपाल, दिनांक 26 जून 2014

क्र. 661-रा.स.-यू.ए.-5-2014.—राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की धारा 27(1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, माननीय कुलाधिपतिजी निम्नलिखित विधायकगणों को अधिनियम की धारा 27 की उपधारा (2) के खण्ड (नौ) के अन्तर्गत राज्य विधान सभा के निर्वाचित सदस्य के रूप में राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर के प्रबंध मण्डल में सदस्य मनोनीत करते हैं :—

1. श्री जयभान सिंह पवैया,  
44-ए ऑफिसर्स बंगले, माणिक विलास के  
पीछे, ओल्ड झांसी रोड,  
ग्वालियर (म. प्र.).
2. श्री नीटू सत्यपाल सिंह सिकरवार,  
हाउसिंग बोर्ड कालोनी,  
जिला मुरैना (म.प्र.).
3. श्री लाखन सिंह यादव,  
बाईसाहब की परेड, लक्ष्मीगंज, लशकर,  
जिला ग्वालियर (म.प्र.).

कुलाधिपति, राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर के आदेशानुसार,  
शैलेन्द्र कियावत, राज्यपाल के उपसचिव.